



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062023-246235
CG-DL-E-02062023-246235

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2291]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 2023/ज्येष्ठ 11, 1945

No. 2291]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2023/JYAISHTHA 11, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2023

का.आ. 2388(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1096(अ), दिनांक 04 अगस्त, 2005 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26 (पुराना रारा- 43) को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के सुपुर्द कर दिया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 26 (पुराना रारा- 43) के मौजूदा किमी 537+600 से मौजूदा किमी 563+620 (डिजाइन चैनेज किमी 0+000 से किमी 28+800) तक के खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 11.60 किमी की (चार लेन खंड के उपयोग के लिए आधार दर का 100 प्रतिशत) निवल सड़क खंड लंबाई के और 2.220 किमी (0.22 किमी की कुल लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और दस करोड़ रु. या इससे अधिक लागत वाले 16.978 किमी लंबाई के बाइपास के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 1.5 गुना पर यांत्रिक वाहनों पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत की जाने वाली फीस ऐसे फीस प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
फीस प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
आंध्र प्रदेश में रारा-26 (पुराना रारा-43) के विजयानगरम जिले में जोन्नदा गांव के पास मौजूदा चैनेज किमी 558+000 (डिजाइन चैनेज 22+970)	11.60 किमी {बाईपास की लंबाई (लागत>10 करोड़) और संरचनाओं की लंबाई (>60मी) को छोड़कर}	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे फीसप्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट बाइपासों की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाले बाइपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी :-

तालिका-3						
फीस प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	बाइपास का नाम	शुरू होने वाला	मिलने वाला	बाइपास की लंबाई और लागत, जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर, जिस पर फीस संदेय है
आंध्र प्रदेश में रारा-26 (पुराना रारा-43) के विजयानगरम जिले में जोन्नदा गांव के पास मौजूदा चैनेज किमी 558+000 (डिजाइन चैनेज 22+970)	विजयानगरम बाइपास	मौजूदा चैनेज किमी 537.600 डिजाइन चैनेज: 0+000	मौजूदा चैनेज किमी 552.000 डिज़ाइन चैनेज: किमी 17.200	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 1.5 गुना
				16.978 किमी*	409.40	
				* अवसंरचना लंबाई को छोड़कर		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-4			
टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई. (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
आंध्र प्रदेश में रारा-26 (पुराना रारा-43) के विजयानगरम जिले में जोन्नदा गांव के पास मौजूदा चैनेज किमी 558+000 (डिजाइन चैनेज 22+970)	0.222 किमी.	2.220 किमी.	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

ब्यौरा निम्नानुसार है:-

डिजाइन चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
किमी से	किमी तक	आरओबी	0.111 किमी
0+870	0+981	आरओबी	0.111 किमी
12+770	12+881	कुल	0.222 किमी

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और फीस प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2023-24 के लिए 330.00 रु. (तीन सौ तीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-5		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अध्वधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 563.14 करोड़ रु. है। (भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों के रूप में, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्वधीन है) प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12014/122/2016-एपी (पी-7) (पार्ट)/ ई-208812]

सुमन प्रसाद सिंह संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2023

S.O. 2388(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1096(E) dated 4th August 2005 issued under section 05 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the National Highway No.26 (Old NH 43) in the State of Andhra Pradesh to the State Government of Andhra Pradesh.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table-1 for net road section length of 11.60 Km (at 100% of the base rate for use of four lane section) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 2.220 Km (having a length of 0.22 Km) and 1.5 times of base rate for bypasses having length of 16.978 Km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the section from existing Km 537+600 to existing Km 563+620 (Design Ch. Km.0+000 to Km.28+800) of New NH number 26 (old NH 43) in the State of Andhra Pradesh and authorises the National Highway Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely :-

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At existing Ch. km 558+000 (Design Ch 22+970) Near Jonnada Village in Vizianagaram District of NH-26 (old NH-43) in Andhra Pradesh	11.60 Km {Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)}	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs.10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) :-

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
At existing Ch. km 558+000 (Design Ch 22+970) Near Jonnada Village in Vizianagaram District of NH-26 (old NH-43) in Andhra Pradesh	Vizianagaram Bypass	Existing Ch. Km 537.600	Existing Ch. Km 552.000	Length (in Km.)	Cost (in Rs. Cr)	1.5 times of the base Rates mentioned in Table-1 above
		Design Ch: 0+000	Design Chainage: Km.17.200	16.978 Km*	409.40	
		*excluding structure length				

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10 :-

Table -4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At existing Ch. km 558+000 (Design Ch 22+970), Near Jonnada Village in Vizianagaram District of NH-26 (old NH-43) in Andhra Pradesh	0.222 Km	2.220 Km	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

Design Chainage		Type of Structure	Length (in km)
From (Km)	To (Km)		
0+870	0+981	ROB	0.111 Km
12+770	12+881	ROB	0.111 Km
		Total	0.222 Km

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 330.00 (Rupees Three Hundred and Thirty Only) for the year 2023-24 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for One way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highway Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rs.563.14 Cr. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RW/NH-12014/122/2016-AP(P-7)(part)/E-208812]

SUMAN PRASAD SINGH Jt. Secy.